

उत्तराखण्ड वनाग्नि: ग्लेशियरों के लिये संकट

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड में वनाग्नि की घटना के कारण कश्चित् वनों को भारी नुकसान पहुँचा है। नवंबर 2023 से, वनाग्नि की 886 अलग-अलग घटनाओं में 1,107 हेक्टेयर वन कश्चित् नष्ट हो गया है, जससे स्थानीय पारस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ने की चिंता उत्पन्न हो गई है।

मुख्य बडि:

- **भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India- FSI)** ने मौजूदा संकट की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए, उत्तराखण्ड में कई वनाग्नि-अलर्ट जारी किये हैं।
- **वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी** के एक पूर्व वैज्ञानिक ने विशेष रूप से गर्मियों के दौरान वनाग्नि के कारण वातावरण में **ब्लैक कार्बन** की बढ़ती सांद्रता पर प्रकाश डाला है, जो **ग्लेशियर के पघिलने** का प्रमुख कारण है और पूरे पारस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करता है।
- **वशिव बैंक** द्वारा हाल ही में किये गए एक अध्ययन में ग्लेशियर पघिलने की गति बढ़ाने में ब्लैक कार्बन की भूमिका को रेखांकित किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, ब्लैक कार्बन के संचय से न केवल ग्लेशियर की सतहों का परावर्तन कम हो जाता है, जससे सौर विकिरण का अवशोषण बढ़ जाता है, बल्कि हवा का तापमान भी बढ़ जाता है, जससे ग्लेशियर के सखलन की गति और तेज़ हो जाती है।
- **वशिव मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** ने **हिमालय** में ग्लेशियरों के तेज़ी से पघिलने और **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड** जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरों की चेतावनी दी है।
- उनके हालिया अध्ययन में ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के प्रभावों को कम करने और हिमालय कश्चित् के नाजुक पारस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिये ठोस प्रयासों की आवश्यकता बताई गई है।

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (Wadia Institute of Himalayan Geology-WIHG)

- वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान** है।
- जून, 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के दो कक्ष में एक छोटे केंद्र के रूप में स्थापित इस संस्थान को अप्रैल, 1976 के दौरान देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)

- यह एक प्रकार की वनाशकारी बाढ़ है जो तब होती है जब **हिमनद झील बाँध** असंतुलित हो जाता है, जससे बहुत बड़ी मात्रा में जल प्रवाह होता है।
- इस प्रकार की बाढ़ आम तौर पर **ग्लेशियरों के तेज़ी से पघिलने** या भारी वर्षा या पघिले जल के प्रवाह के कारण झील में जल के अति-संचय के कारण होती है।
- फरवरी 2021 में, उत्तराखण्ड के **चमोली ज़िले में अचानक बाढ़ की घटना** हुई, जसके बारे में **संदेह है किये GLOF के कारण हुई थी**।
- **कारण:**
 - ये बाढ़ कई कारकों से उत्पन्न हो सकती है, जनिमें **ग्लेशियर की मात्रा में परिवर्तन, झील के जल स्तर में परिवर्तन** और **भूकंप** शामिल हैं।
 - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA)** के अनुसार, **हृदिकुश हिमालय** के अधिकांश हिस्सों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के सखलन से कई नए हिमनद झीलों का निर्माण हुआ है, जो GLOF का प्रमुख कारण हैं।

Black Carbon's Arctic Impact

Black carbon, commonly known as soot, is a particulate pollutant that negatively affects both the climate and human health. Soot particles suspended in the atmosphere absorb sunlight, adding to global warming. And when it collects on ice and snow, it hastens melting.

NEGATIVE IMPACTS OF BLACK CARBON

Particulates trapped in lungs leads to illness



Clean clouds reflect sunlight

Sooty clouds absorb sunlight, creating changes in cloud and rain patterns

Clean snow and ice reflect sunlight

Black carbon particles absorb sunlight, warming the snow and ice, increasing melting

Sunlight

Black carbon

Melt

CAUSES

- ▼ Smoke from open burning
- ▼ Industry and coal-fired power plants
- ▼ Engine emissions (diesel, ships, trains)

Note: Illustration is diagrammatic and not to scale.

//